

भारत सरकार  
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

# दिल्ली राजपत्र

## Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-11032024-252834  
SG-DL-E-11032024-252834असाधारण  
EXTRAORDINARY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 87]	दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2024/फाल्गुन 18, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 461
No. 87]	DELHI, FRIDAY, MARCH 8 2024/PHALGUNA 18, 1945	[N. C. T. D. No. 461

भाग IV  
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  
वित्त (व्यय-I) विभाग  
अधिसूचना संख्या- 18/2023-राज्य कर (दर)

दिल्ली, 7 मार्च, 2024

सं.फा.03(27)/वित्त(व्यय-I)/2023-24/डीएस-I/208.— दिल्ली माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 03) की धारा 11 की उप धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, इस की अधिसूचना संख्या 2/2017- राज्य कर (दर), जिसे सं.फा. 3(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/374, दिनांक 30 जून, 2017 के तहत दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा :-

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, क्रम संख्या 94 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

(1)	(2)	(3)
"94क	1901	श्री अन्न के आटे की खाद्य तैयारी, पाउडर के रूप में, जिसमें वजन के अनुसार कम से कम 70% श्री अन्न शामिल हो, जिन्हे प्री-पेकेज्ड और लेबल किया गया हो से भिन्न" ।

2. यह अधिसूचना 20 अक्तूबर, 2023 से लागू होगी।

नोट : मूल अधिसूचना को दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, में अधिसूचना संख्या 2/2017 राज्य कर (दर), जिसे सं.फा 3(15)/वित्त(राजस्व-I)/2017-18/डीएस-VI/374, दिनांक 30 जून, 2017 दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV के तहत प्रकाशित किया गया था, और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 04/2023 राज्य कर (दर) जिसे सं.फा. 3(45)/वित्त(राजस्व-I)/2022-23/डीएस-I/447, दिनांक 25 मई 2023 के तहत, दिल्ली के राजपत्र, असाधारण के भाग-IV, खंड 3, उप खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल  
के आदेश से तथा उनके नाम पर

रविन्द्र कुमार, उप सचिव (व्यय- I)

**GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI**  
**FINANCE (EXPENDITURE-I) DEPARTMENT**  
**NOTIFICATION No. 18/2023-State Tax (Rate)**  
Delhi, 7th March, 2024

**No. F.3 (27)/Fin.(Exp-I)/2023-24/DS-I-/208.**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Delhi Goods and Services Tax Act, 2017 (03 of 2017), the Lieutenant Governor of National Capital Territory of Delhi, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the Government's Notification, No.02/2017- State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374, dated 30<sup>th</sup> June, 2017, namely:-

In the said notification, in the Schedule, after S.No.94 and the entries relating thereto, the following S.No. and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)
"94A.	1901	Food preparation of millet flour, in powder form, containing at least 70% millets by weight, other than pre-packaged and labeled. "

2. This notification shall come into force with effect from the 20<sup>th</sup> day of October, 2023.

**Note:** - The principal notification No.2/2017-State Tax (Rate), was published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (15)/Fin(Rev-I)/2017-18/DS-VI/374, dated 30<sup>th</sup> June, 2017, and was last amended by notification No. 04/2023-State Tax (Rate), published in the Gazette of Delhi, Extraordinary, Part IV, Section 3, Sub- section (i), vide number F.3 (45)/Fin(Exp-I)/2022-23/DS-I/447, dated 25<sup>th</sup> May, 2023.

By Order and in the Name of the  
Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

RAVINDER KUMAR, Dy. Secy. (Exp.-I)